

## प्रमंडल सदस्य श्री प्रभात दुबे द्वारा वी.यू. का निरीक्षण

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के माननीय प्रमंडल सदस्य श्री प्रभात दुबे ने पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय के कुछ विभागों का निरीक्षण किया। वि.वि. के माननीय कुलपति डॉ. प्रयाग दत्त जुयाल ने उन्हें पैरासायटोलॉजी, पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी विभाग का निरीक्षण करवाया। इस अवसर पर पर श्री दुबे जी ने विभागों के प्राध्यापकों एवं विभागाध्यक्षों को सलाह दी है कि आप लोग पशुपालकों के द्वार तक जाकर अपनी सेवाएं प्रदान करें एवं वर्ष 2022 तक पशुपालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु लगन एवं मेहनत से कार्य करें।



अंत में श्री दुबे जी ने महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों को संबोधित करते हुये कहा कि आप लोग टीम वर्क करके विश्वविद्यालय को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचायेंगे। मैं अपनी ओर से प्रत्येक कार्य को करने में मदद करूंगा। उन्होंने वि.वि. द्वारा प्रदेश में डेरी साइंस एवं फूड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय की स्थापना हेतु सरकार को भेजे गये प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत कराने हेतु मदद का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर वि.वि.के माननीय कुलपति डॉ. प्रयाग दत्त जुयाल ने कहा कि यह विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री की योजना कृषकों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रहा है। वैज्ञानिकों की सराहना की व उनके कार्यों को स्थापना दिवस पर सम्मानित करने को कहा।

उन्होंने बताया कालेज बहुत पुराना है तथा इसके उत्थान के लिये विश्वविद्यालय को 100 करोड रूपये की एक बार स्वीकृति की जरूरत है। विभिन्न लंबित कार्य जैसे ऑडीटोरियम का निर्माण तथा अन्य कार्य पूर्ण करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशुपालकों की समस्याओं के निराकरण हेतु सभी पशुचिकित्सकों की एक बैठक बुलाने की आवश्यकता बताई जिससे महाविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा निदान सुझाया जा सके।

कार्यक्रम में अधिष्ठाता महाविद्यालय ने महाविद्यालय की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने महाविद्यालय में स्टाफ की कमी को पूरा करने का निवेदन किया जिससे शिक्षण एवं अनुसंधान कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जा सके।

कार्यक्रम में डॉ. वाय.पी. साहनी, डॉ. मधु स्वामी, डॉ. ओ.पी. श्रीवास्तव, डॉ. आर.के. शर्मा, डॉ. एस.के.जोशी, डॉ. एच.एस.सिंह, डॉ. एन.के. जैन सहित समस्त प्राध्यापकों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन डॉ. आदित्य मिश्रा ने किया।

सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी  
ना.दे.प.चि.वि.वि.  
जबलपुर